

Jagsonpal Finance & Leasing Limited

D-28, First Floor, Greater Kailash Enclave-I, New Delhi-110048. CIN No.: L65929DL1991PLC043182
Tel: 011-49025758 Fax : 011-41633812, Web: www.jagsonpal.co.in, Email: jagsonpalfinance@gmail.com

October 31, 2017

BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai-400 051

Scrip Code : 530601

Subject : Intimation of the date of Meeting of Board of Directors under Regulation 29(1) (a) of the SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Dear Sir,


Pursuant to the Regulation 29(1) (a) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday, November 14, 2017, to consider the Unaudited Financial Results of the Company for the Second Quarter ended September 30, 2017.

Further the above information is also available on the Company's and BSE Websites i.e. www.jagsonpal.co.in and www.bseindia.com.

This is for your information and record.

Thanking You,

Yours faithfully,
for JAGSONPAL FINANCE & LEASING LTD.


Sumit Kumar Ghosh
(Compliance Officer)

Encls: As Above.

CC : 1) The Delhi Stock Exchange Association Ltd.

Encls: 1) As Above.(Financial Express Dt.31.10.2017 & Jansatta Dt. 31.10.2017)

MITED
 (Listing, ITI) Limited
 2, Doodh Naga,
 560016
 Bangalore
INTEREST
GLAD FOR
MSF via IOT/Smart
an
 SII (S) DT/3/3/17
 e log on to
 hhd-india.com

Shalimar Wires Industries Limited
 CIN : L74140WB1996PLC081521
 Registered Office : 25, Ganesh Chandra Avenue
 Kolkata - 700 013
 Tel : 91-33-22349308/88110, Fax: 91-33-2211 6850
 email ID : kajriwal@shalimawires.com
 website: www.shalimawires.com

NOTICE
 Notice is hereby given, pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 with the Stock Exchanges, that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, the 8th November, 2017 to consider, inter-alia, the unaudited financial results of the Company for the quarter ended 30th September, 2017. The information is also available on the website of the company at: www.shalimawires.com

For Shalimar Wires Industries Ltd.
 Place: Kolkata S.K. Kojriwal
 Date: 30th October 2017 Company Secretary

JAGSONPAL FINANCE & LEASING LTD
 Regd. office : D-28, First Floor, Greater Kailash
 Enclave - I, New Delhi - 110048,
 Tel: 011-49025758, Fax: 011-41633812
 email: jagsongpalfinance@gmail.com
 Website: www.jagsongpal.co.in
 CIN : L65929DL1991PLC043182

NOTICE
 Pursuant to Regulation 29 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that the meeting of Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, November 14, 2017, to consider and take on record the Un-audited Financial Results for the Second Quarter (Q2) ended on September 30, 2017.

By order of the Board of Directors
 Jagsonpal Finance & Leasing Ltd.
 Sd/-
 Date: 30.10.2017 Sumit Kumar Ghosh
 Place: New Delhi Company Secretary

1 Crores)
Year ended 1.03.2017
AUDITED
1,277.55
99.23
1,376.78
191.76
379.30
14.50
110.49
1.81
512.85
1,210.71
166.07
(38.22)
127.85
47.96
(16.63)
96.53
(12.44)
4.31
88.40
114.31
2,445.19

AKSH OPTIFIBRE LIMITED
 Regd. Office: F-1080, RIICO Industrial Area,
 Phase -III, Bhiwadi- 301 019 (Rajasthan)
 Corp. Office: A-25, 2nd Floor, Mohan Co-Operative Industrial Estate, Mathura Road,
 New Delhi-110044
 CIN No.: L24305R1998PLC016132
 Phone No.: 91-1493-220783, 221333,
 Fax No.: 91-1493-221329
 E-mail: csi@akshoptifibre.com,
 Website: www.akshoptifibre.com

NOTICE
 Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, Notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, November 10, 2017, to consider inter-alia the Unaudited Financial Results of the Company for the Quarter and half year ended September 30, 2017.

Further, the Board shall also consider approving the revised Audited Financial Results of the Company for the Financial Year ended March 31, 2017, considering the effect of Merger of AP Aksh Broadband Limited (Subsidiary of the Company) with the Company, subject to the pronouncement of Order (reserved for pronouncement) by Hon'ble National Company Law Tribunal (NCLT), New Delhi Bench, and filing of the same with the Registrar of Companies, Rajasthan

The above details are also available on the website of the Company viz. www.akshoptifibre.com and also on the website of the Stock Exchanges viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com

बैंक ऑफ बड़ोदा Bank of Baroda
 Branch Office: Bhajanpura, New Delhi

POSSESSION NOTICE (For Immovable Property/ies)

Whereas, The undersigned being the Authorised Officer of the Bank of Baroda under Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (Second) Ordinance Act, 2002 (Ord. 3 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a Demand Notice dated 07/07/2017 calling upon the Borrower Mr. Sanjeev Kumar S/o Rameshwar Dayal Kaushik and Guarantor Mr. Mithlesh Yadav to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 7,09,106/- (Rs Seven lakhs Nine Thousand One hundred Six only) as on 30/06/2017 together with further interest thereon at the contractual rate plus cost, charges and expenses till date of payment within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The Borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Section 13 and sub Section (4) of the said Act read with Rule 8 of the security interest (Enforcement) Rule 2002 on this 25th day of October of the year 2017. The Borrower/Guarantors/Mortgagors in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Bank of Baroda, for an amount of 7,09,106/- (Rs Seven lakhs Nine Thousand One hundred Six only) as on 30/06/2017 and further interest and other expenses thereon at the contractual rate plus cost, charges and expenses till date of payment.

The Borrower's attention is invited to provisions of sub-section 8 of the section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Name of Borrower/ Guarantor	Description of property mortgaged	Date of demand notice	Date of possession	Amount O/s
Mr. Sanjeev Kumar S/o Rameshwar Dayal Kaushik and Guarantor Mr. Mithlesh Yadav	All that part and parcel of the property situated at Plot no - UG-3, Plot No - B 1/51 DLF Dilshad Extn. II Bhopura, Pargana Loni Ghaziabad (Admeasuring 400 sq ft. as per records available in bank) Registered within District-North East Bounded as- East: Plot No b-1/52, West: Plot No b-1/50, North: Road- 60 Feet wide, South: Plot No b-1/71	07.07.2017	25.10.2017	Rs. 7,09,106/- (Rs Seven lakhs Nine Thousand One hundred Six only) as on 30/06/2017 and further interest and other expenses thereon at the contractual rate plus cost, charges and expenses till date of payment.

Dated: 25.10.2017 Place: Delhi Authorized Officer, Bank of Baroda

बैंक ऑफ इंडिया Bank of India
 Zonal Office: SCO 76-82, Sector 31-A, Chandigarh
 Ph. No. 0172-2671522, 2671517
 E-mail: chandigarh.ARD@bankofindia.co.in

POSSESSION NOTICE (for Immovable Property)

Whereas, the undersigned being the Authorised Officer of the BANK OF INDIA, under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13 (12) read with rule 8 of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice to below mentioned borrower on the dates mentioned against each account and stated hereinafter calling upon the borrowers to repay the amount within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the said borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described here in below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on the dates mentioned against each account.

The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Bank of India for an amount and interest thereon.

Name of the Branch / Borrower / Mortgagor & Guarantors	Date of Demand Notice	Date of Possession	Amounts O/S as on date of Demand Notice	Description of the Immovable Property
TIGAON BRANCH Borrowers:- M/s Jyoti Enterprises, Partner Sh. Devender Kumar Parashar and Sh. Sanjiv Kumar Parashar (expired) and Guarantors Smt. Om Wati W/o Sh. Sanjay Kumar Parashar and Smt. Maya Devi W/o Sh. Jagdish Chand.	12.07.2017	25.10.2017	Rs. 4,14,911.32 + interest and other charges w.e.f. 30.06.2017	All the part and parcel of the property of Residential property bearing Plot No. 9 measuring 100 sq. yds. comprising in Khassra No. 133/1(8-0) situated at Raja Nahar Singh Colony Ballabgarh mauza Shi Tehsil Ballabgarh, Faridabad owned and possessed by Smt. Om Wati Parashar W/o Sh. Sanjay Kumar Parashar. Bounded:- On the East by: Plot No. 8; On the West by: Plot No. 10; On the North by: H. No. MCF-34; On the South by: Rasta 15' wide.
TIGAON BRANCH Borrowers:- Sh. Bhupender Singh S/o Sh. Ram Singh.	10.07.2017	25.10.2017	Rs. 14,71,767/- + interest and other charges w.e.f. 30.06.2017	All the part and parcel of the property situated at Shop cum Residence No. MCF-737/671 (part of old plot No. 4-A, part of house No. C-600) measuring 66.5 sq. yds. (Approx) forming part of Khassra No. 51/10 situated at Chawla Colony, Tehsil Ballabgarh, Distt. Faridabad owned and possessed by Sh. Bhupender Singh S/o Late Sh. Ram Singh. (b) Bounded:- On the East by: Jinx Fashion Store; On the West by: Another Property; On the North by: Other Property; On the South by: Road 60' wide.
TIGAON BRANCH Borrowers:- Sh. Roshan Lal S/o Sh. Lalita Prasad	10.07.2017	26.10.2017	Rs. 5,73,886.48 + interest and other charges w.e.f. 30.06.2017	All the part and parcel of the property situated at House No. 4645 (Old Plot No. 26A) Gali No. 168, Sohna Road, Parviya Colony, Mauza Gaunchi, Tehsil Ballabgarh, Distt. Faridabad admeasuring 50 sq. yds. owned and possessed by Smt. Yogesh Devi W/o Sh. Roshan Lal Sharma vide sale deed no. 7847 dated 05.10.2012. Bounded:- On the East by: Plot Sh. Altar Singh; On the West by: Vacant Plot; On the North by: Vacant Plot; On the South by: Rasta

Date: 30.10.2017 Place: Tigaon AUTHORIZED OFFICER

GOKALDAS EXPORTS LIMITED
 Corporate Identification Number (CIN): L18101KA2004PLC033475
 Prestige Dns' Corp. No. 16/2, Residency Road, Bangalore-560025. Tel: 080 41272200/01.02, 080-33477000
 Fax: 33477491 E-mail: investorcare@gokaldasexports.com Website: www.gokaldasexports.com

For Jagsonpal Finance & Aksh Optifibre
 Sumit Kumar Ghosh
 Company Secretary

डाकघर बचत खातों की दर चार फीसद ही मिलेगी, उन्हें वह दर नहीं मिलेगी जो निवासी भारतीय के रूप में दी जा रही थी। लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) के मामले में जिस दिन खाताधारक का दर्जा एनआरआई का हो जाएगा उसी दिन से उसका पीपीएफ खाता बंद मान लिया जाएगा।

लोक भविष्य निधि कानून, 1968 में संशोधन के अनुसार, अगर इस योजना का कोई खाता धारक प्रवासी भारतीय बन जाता है, तो उसके खाते को उसी दिन

बंद होगा।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
 100th Anniversary
 100th Anniversary
 100th Anniversary

बैंक के प्रधान कार्यालय भवन, 21 राजेन्द्र प्रसेन, नई दिल्ली-8 में हाउसफीरिंग और सेना-सुविधा प्रदान के लिए बैंक गृहबंध निविदाएं आमंत्रित करता है। अधिक जानकारी के लिए निविदा आमंत्रण पर www.pnb.co.in पर देखें। निविदा स्वीकार करने की अंतिम तिथि 27.11.2017 है।
 दिनांक: 31.10.2017
 नई दिल्ली मुख्य प्रबंधक (जीए)

MEGA NIRMAN & INDUSTRIES LTD.
 CIN: L70101DL1983PLC015425
 Regd. Off: A-6/343B, 1st Floor, Paschim Vihar, New Delhi-110063
 Email: secretarial.mnil@gmail.com
 Website: www.mnil.in
 Phone: 011-49379887

NOTICE
 Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, November 08, 2017, in-ara, to consider and approve the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter/ half year ended September 30, 2017.
 A copy of the Notice and the Financial results shall also be available on the website of the Company and of the Stock Exchange i.e. www.mnil.in and www.bseindia.com, respectively.
 For Mega Nirman & Industries Limited
 Place : New Delhi Sd/-
 Date : October 30, 2017 Abhishek Kamra
 Company Secretary

JAGSONPAL FINANCE & LEASING LTD
 Regd. office: D-28, First Floor, Greater Kailash Enclave -1, New Delhi-110048,
 Tel: 011-49025758, Fax: 011-41633812
 email: jagsonpalfinance@gmail.com
 Website: www.jagsonpal.co.in
 CIN : L65929DL1991PLC043182

NOTICE
 Pursuant to Regulation 29 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that the meeting of Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, November 14, 2017, to consider and take on record the Un-audited Financial Results for the Second Quarter (Q2) ended on September 30, 2017.
 By order of the Board of Directors
 Jagsonpal Finance & Leasing Ltd.
 Sd/-
 Date: 30.10.2017 Sumit Kumar Ghosh
 Place: New Delhi Company Secretary

इलाहाबाद बैंक
 विश्वास की परंपरा
ALLAHABAD BANK
 A tradition of trust

प्रधान कार्यालय : 2, नेहरू सुभाष रोड, कोलकाता - 700001

सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल बैंकिंग विभाग
 निविदा सूचना

आरएफपी संदर्भ सं. प्रका/सूची एवं डीबी/एएसएसपी/बी/2017-18/75 दिनांक: 31.10.2017
 इलाहाबाद बैंक, बैंक की शाखा लोकेशनों पर 250 सेलफ सर्विस पासबुक प्रिंटिंग कियोज्क की आपूर्ति, संस्थापन और रखरखाव हेतु पात्र बोलीकर्ताओं से गृहबंध बोलीयां आमंत्रित करता है।
 आरएफपी को बिक्री आरंभ होने की तिथि : 31.10.2017 13:00 बजे आईएसटी बोली पूर्ण बैठक की तिथि एवं समय : 07.11.2017 15:00 बजे आईएसटी आरएफपी की बिक्री की अंतिम तिथि एवं समय : 24.11.2017 12:00 बजे आईएसटी बोलीयां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय : 24.11.2017 13:00 बजे आईएसटी अतिरिक्त विवरण हेतु कृपया बैंक की वेबसाइट : www.allahabadbank.in एवं ई-टेंडर वेबसाइट : www.tenderwizard.com/abank देखें।
 मुख्य प्रबंधक (सू.प्र.)

Bank of India
 Relationship beyond banking

असाई गेड फसखा
 8, दरियागंज, नई दिल्ली-110002
 फ़ैक्स: 011-23280192,
 फ़ोन: 23250193, 23250072, 2325013

[विभाग अ(1)] गृहबंध सूचना

वेसा कि, विस्तृत परिभाषितियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत बैंक अधिनियम के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने पांच सूचना दिधि 11.8.2017 जारी कर अग्रधारक श्री राजीव शर्मा तथा सोमेश शर्मा, पत्नी राजीव शर्मा को उक्त सूचना की प्रतियां को प्रतियां से 60 दिनों के भीतर सूचना से संबंधित उक्ति रु. 22,94,238.54 (दशमों में अग्र धारक साक्ष्य चालानों हजारे दो सौ सत्तारह हजार पांच सौ बीस मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।
 अग्रधारक, उक्त शर्त को वापस लौटाने से विफल रहे, अतः एतद्वारा अग्रधारक, तथा आम जनता को सूचित किया गया है कि आज दिनांक 26 अक्टूबर, 2017 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उक्त प्रतियां का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने उक्त शर्तों के संबंध में अग्रधारक को वापस कर दिया है।
 विशेष रूप से अग्रधारकों तथा आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे उक्त शर्तों के संबंध में समझौता करने वाले हैं अथवा इन समझौतों को बिक्री की तरह का व्यवसाय उक्त शर्तों के अंतर्गत तथा अग्रधार और के अंतर्गत रु. 22,94,238.54 (श्री राजीव शर्मा तथा सोमेश शर्मा दोनों के अंतर) के धारक के अंतर्गत होगा।
 अग्रधारक का ध्यान प्रतिभूति प्राधिकरणियों को विभाजित करने के लिए उपलब्ध समय के अंतर्गत अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (5) के प्रवर्तन की प्रति आकृष्ट हो जानी है।
 अग्रधार समझौता का विवरण
 श्री राजीव शर्मा के नाम में आम बचत खाता, शाहदरा, दिल्ली-110032 के क्षेत्र में निर्मित अग्रधार समझौता मुक्ति के अग्रधार की राशि 50 लाख आईएस अक्टूबर 31.81 शीट, अग्रधार नं. 806/513/514 एवं 834 में, मकान सं. 4/440, पुराना समझौते सं. 252, प्रथम तह, पार्सल नं. 12, मोलानाज नगर का सभो भाग तथा विवरण। चौहरी टाइलर की के अनुषंग।
 उक्त अंतर्गत समझौते
 पुर्व: माली & पीट चौहरी
 तिथि: 26.10.2017
 स्थान: दिल्ली

उक्ति: अंतर्गत समझौते
 परिषद: अंतर्गत समझौते
 हस्ता/- प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरी,
 बैंक अधिनियम

(CIN-L65190MH2004G0146638) फ़ोन : 011-66063065, 011-66063056

ब्रिजवाण अ (1) बंधनानुसूचना

जबकि,
 अधोहस्ताक्षरी ने आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वितीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत और प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 (नियमावली) के 1 साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना दिनांकित 27-06-2017 जारी की।
 कर्जदार श्री राज मिश्रा से सूचना में वर्णितानुसार 10-06-2017 तक बकाया राशि रु. 12,12,552/- (रु. बारह ल हज़ार पांच सौ बावन मात्र) का भुगतान उक्त सूचना की प्रतियां की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी।
 कर्जदार उक्त शर्तों को नहीं मानते हैं, अतः एतद्वारा कर्जदार और जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोह हास्ताक्षरी प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत उक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित अग्रधार संपत्ति का कब्जा 25 अक्टूबर, 2017 को प्राप्त कर लिया है।
 एतद्वारा कर्जदार को विशेष रूप से तथा जनसाधारण को सामान्य रूप से संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधानता है और संपत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार आईडीबीआई बैंक लिमिटेड की 10-10-2017 तक बकाया रु. 11,75,847/- (रु. ग्यारह लाख पचास हजार आठ सौ सत्तारह मात्र) तथा उक्त पर ब्याज एवं खर्चों के भुगतान की किया जा सकता है।
 कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा प्रवर्तन की और आकृष्ट किया जाता है।

उत्तरांचल प्रदेश राजधानी

समिति पलेट न. ए-301, नीलपदम कुज, दामर के सामने, वैशाली, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत अशा एवं खंड
 बोहरी नीचे दिए अनुसार:-
 उत्तर :
 दक्षिण : स्वामित्व विलेख के अनुसार
 पूर्व :
 पश्चिम :
 उसके ऊपर सभी विलेख संद्वरस और जमीन पर अथवा जमीन के साथ रखायी रूप से जुड़ी किसी चीज पर सभी प्लाट एवं मशीनरी सहित।
 स्थान : गाजियाबाद प्राधिकृत
 तिथि : 25 अक्टूबर, 2017 आईडीबीआई बैंक

BRAND REALTY SERVICES LTD.
 Regd.Off: S-8 & 2, DDA Shopping Complex, Opp. Pocket-1, Mayapuri Vihar, Phase-I, Delhi-
 Telephone No. 011-22755819, Fax.No.011-22795783
 CIN : L74899DL1995PLC064237, PAN : AABCS3166R, ST NO. : AABCS3166RST001

Statement of unaudited Financial Results for the quarter and half year ended 30 September
 (Rs.in lakhs except per sh

S. No	Particulars	Quarter Ended			Half Year Ended		Ye
		30.09.2017 Unaudited	30.06.2017 Unaudited	30.09.2016 Unaudited	30.09.2017 Unaudited	30.09.2016 Unaudited	
1	a) Income from Operations	0.65	41.69	34.96	42.34	58.61	
2	b) Other Operating Income	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Expenditure						
	a) Operating Expenses	0.25	3.97	10.16	4.22	18.03	
	b) Administrative & General Expenses	14.09	17.13	19.29	31.22	41.20	
	c) Employees Cost	21.66	23.99	26.07	45.65	56.43	
	d) Depreciation	8.62	6.62	2.85	13.24	5.70	
	e) Other expenditure	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Total Expenditure	42.62	51.71	58.37	94.33	121.36	
3	Profit/(Loss) from Operations before Other Income and Exceptional Items (1-2)	(41.97)	(10.02)	(23.41)	(51.99)	(62.75)	
4	Other Income	0.41	0.30	20.07	0.71	27.01	
5	Profit/(Loss) before Interest & Exceptional Items (3+4)	(41.56)	(9.72)	(3.34)	(51.28)	(35.74)	
6	Interest & Finance Charges	3.83	3.76	3.70	7.59	7.11	
7	Profit/(Loss) after interest but before Exceptional Items (5-6)	(45.39)	(13.48)	(7.04)	(58.87)	(42.85)	
8	Exceptional/Prior Period Expenses/(Income)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	Profit/(Loss) from Ordinary Activities before Tax (7-8)	(45.39)	(13.48)	(7.04)	(58.87)	(42.85)	
10	Tax expense:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	Net Profit/(Loss) from Ordinary Activities after tax (9-10)	(45.39)	(13.48)	(7.04)	(58.87)	(42.85)	
12	Extraordinary Item (net of tax expense)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	Net Profit/(Loss) for the period (11-12)	(45.39)	(13.48)	(7.04)	(58.87)	(42.85)	
14	Paid-up equity share capital (Face Value of the Share is Rs. 10/-)	300.44	300.44	300.44	300.44	300.44	
15	Reserve excluding Revaluation Reserves (As per balance sheet of prev ac yr.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	Earnings Per Share (EPS) (Face value of Rs.10/- each)						
	a) Basic	(1.51)	(0.45)	(0.23)	(1.96)	(1.43)	
	b) Diluted	(1.51)	(0.45)	(0.23)	(1.96)	(1.43)	

NOTES:-
 1. The company has adopted Ind AS 17 wef 1st April 2017.
 2. These results have been approved by the Board of Directors in its meeting held today and have undergone the Review by the Statutory Auditors of the Company.
 3. No complaints were received during the quarter. Investor Complaint outstanding at the beginning and the end of it was nil.
 4. Previous period figures have been regrouped/re-arranged, wherever necessary.

Place:Noida
 Date :30th October, 2017

Corp.office:- F-6/18, Wave Silver Tower, Sector-18, Noida - 201301, Tel. No.: 9999916037
 Email:-nikhil@brandrealty.in, Website: www.brandrealty.in

Kamal Mi
 Whole Time
 DIN:1

For Jagsonpal Finance & Leasing Ltd.
 Sumit Kumar Ghosh
 Company Secretary

Jansatta
 31-10-17